

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 10 जून, 2019

विषय:— हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ के 10 पदों की निरन्तरता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11/पिथौ0स्पो0कॉ0पत्रा0/2015-16 दिनांक 08.04.2019 एवं शासनादेश संख्या-630/VI/2016-22(12)2014, टी0सी0, दिनांक 02.09.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज, पिथौरागढ़ के 10 पदों की निरन्तरता अवधि 01 मार्च, 2017 से 29 फरवरी, 2020 तक के लिए बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते हैं कि यह पद उक्त अवधि के पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय।

2— उक्त पदों हेतु सेवा नियमावली के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित करते हुए नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में यथाआवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद-32-00-पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज-43-वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान मानक मद में डाला जायेगा।

भवदीया,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 192/VI/2019-22(12)/2014 टी0सी0-2, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
6. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
7. जिला क्रीडाधिकारी, पिथौरागढ़।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।